



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]
No. 33]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2009/माघ 2, 1930
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2009/MAGHA 2, 1930

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2009

सा.का.नि. 43(अ)—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकेंगे।

ऐसी अपेक्षाओं और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 42 में, उप-नियम (ययय)(25) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(ययय)(26) पालीओलस वाले खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगाया जाएगा :—

पालीओलस का मृदुरेचक प्रभाव को सकेगा

(ययय)(27) पालीडेक्स्ट्रोस वाले खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगाया जाएगा :—

पालीडेक्स्ट्रोस का मृदुरेचक प्रभाव हो सकेगा”।

3. उक्त नियमों के नियम 47 में,—

(क) सारणी में,—

- (i) एस्परेटेम (मेथिल एस्टर) से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने स्तंभ 3 और स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

3	4
“फल मकरन्द	600 पीपीएम
सब्जी मकरन्द	600 पीपीएम
आइस्क्रीम, फ्रोजेन डेजर्ट और पुडिंग	1000 पीपीएम
सुरुचिकारित दूध	600 पीपीएम
परोसने के लिए तैयार चाय और काफी	600 पीपीएम
योगहर्ट	600 पीपीएम
खाने के लिए तैयार अनाज	1000 पीपीएम
नान-कार्बोनेटीकृत जल आधारित पेय	600 पीपीएम”,
(नान-अल्कोहलिक)	

- (ii) एससल्फेम पोटाशियम से संबंधित क्रम सं. 3 के सामने स्तंभ 3 और स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

3	4
"नान-कार्बोनेटीकृत जल आधारित पेय (नान-अल्कोहलिक)	300 पीपीएम".

- (iii) सुक्रालूज से संबंधित क्रम सं. 4 के सामने स्तंभ 3 और स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी :—

3	4
"नान-कार्बोनेटीकृत जल आधारित पेय (नान-अल्कोहलिक)	300 पीपीएम
जेली क्रिस्टल	*300 पीपीएम
कस्टर्ड पाउडर/खाने के लिए तैयार कस्टर्ड डेजर्ट	*260 पीपीएम
चाकलेट	800 पीपीएम".

- (iv) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"5	नियोटेम	कार्बोनेटीकृत जल मृदुपेय सान्द्र	33 पीपीएम *33 पीपीएम";

(ख) सारणी के पश्चात् स्पष्टीकरण 2 में "मृदु पेय सान्द्र में कृत्रिम मीठा करने वाले पदार्थ की अधिकतम सीमा" शब्दों से प्रारंभ होने वाला और "उत्पादों के पुनर्गठित के लिए स्पष्ट अनुदेश होगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उत्पाद में कृत्रिम मीठा करने वाले पदार्थ की अधिकतम सीमा वह होगी, जो यथास्थिति, पुनर्गठित पेय या खाद्य या अंतिम पेय अथवा उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ में होती है। उत्पाद लेबल पर यथास्थिति अंतिम पेय या उपभोग के लिए खाद्य पदार्थ बनाने के लिए स्पष्ट अनुदेश होंगे।";

(ग) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, परन्तुक में,—

(i) "या सुक्रालोस" शब्दों के पश्चात् "या नियोटेम" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) वाहक या पूरक वस्तुओं की सूची के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"22. एरिथ्रिटोल";

(घ) उप-नियम (2) में विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि एम्परेटम (मिथिल ईस्टर) और एसिसुल्फेम के पोटाशियम (2 : 1 के अनुपात में) के मिश्रण को खाद्य मधुकारक के रूप में विपणित किया जा सकेगा और उसमें ऐसे वाहक या पूरक वस्तुएं अंतर्विष्ट हो सकेंगी जो उपनियम (1) में दी गई सारणी के नीचे परन्तुक में और नियम 42 के उपनियम (ययय) के खंड (1) और खंड (2) में यथाउपबोधित लेबल के नीचे उल्लिखित हैं।"

4. उक्त नियमों के नियम 47 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"47-क खाद्यों में पोलीओल्स के उपयोग पर निर्बंधन—इन नियमों और परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तु के सिवाय किसी अन्य खाद्य वस्तु में कोई पोलीओल्स नहीं मिलाया जाएगा। नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित खाद्य वस्तुओं में पोलीओल्स का उपयोग किया जा सकेगा और नियम 42 के उप-नियम (ययय) (26) में यथा उपबोधित लेबल घोषणा होगी :—

क्र. सं.	पोलीओल्स का नाम	खाद्य वस्तु	अधिकतम सीमा
----------	-----------------	-------------	-------------

1. आइसोमाल्ट (i) पारम्परिक भारतीय मिठाइयां (कार्बोहाइड्रेट और दुग्ध उत्पाद आधारित) हलवा, मैसूर पाक, बूंदी, लड्डू, जलेबी, खोया बर्फी, पेडा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और इसी प्रकार के दुग्ध उत्पाद आधारित मिठाइयां, जिनका किसी भी नाम से विक्रय किया जाता है।
(ii) इंस्टेंट स्वीट मीट मिक्सेस (पोंगल मिक्स, गुलाब जामुन मिक्स, जलेबी मिक्स)
(iii) बेकरी उत्पाद
(iv) जैम, जेली और मुरबे
(v) खाने योग्य बर्फ
(vi) आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट, मीठा योगहर्ट।

2. एरीथ्रिटोल डेयरी पेय (चाकलेट और फ्लेवर्ड मिल्क), कार्बोनेटीकृत पेय, गैर कार्बोनेटीकृत जल आधारित पेय (नान एल्कोहलिक), आइसक्रीम, योगहर्ट, पुडिंग, नान डेयरी टॉपिंग, बेकरी मिश्रण, केक, कुकीज और पेस्ट्रीज, खाने के लिए तैयार कलेवा, अनाज, साफ्ट केण्डी, चाकलेट और हार्ड केण्डी।

47-ख. खाद्यों में पालीडेक्सट्रोज का उपयोग—पालीडेक्सट्रोज का उपयोग निम्नलिखित खाद्य वस्तुओं में जीएमपी के अनुसार अधिकतम स्तर के अधीन और नियम 42 के उप-नियम (ययय)(27) में यथाउपबोधित उचित लेबल घोषणा के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा:—

आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट, केक, बिस्कुट, योगहर्ट, व्हिप टॉपिंग, चीनी क्वथित कन्फेक्शनरी, लोजेन्ज, जेम, फल जैली, पारम्परिक भारतीय मिठाइयां (काबोहाइटे और दुग्ध उत्पाद आधारित) हलवा, मैसूर पाक, बूंदी-लड्डू, जलेबी, खोया बर्फी, पेडा, गुलाब जामुना, रसगुल्ला और इसी प्रकार के दुग्ध उत्पाद आधारित मिठाइयां, जिनका किसी भी नाम से विक्रय किया जाता हो।”।

5. उक्त नियमों के नियम 61-च के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“61-छ चीनी कन्फेक्शनरी में अम्ल ट्रीटेड स्टार्च का उपयोग—चीनी आधारित कन्फेक्शनरी में जीएमपी स्तर से अनधिक अम्ल ट्रीटेड स्टार्च का उपयोग किया जा सकेगा।”।

6. उक्त नियमों की परिशिष्ट ‘ख’ में, कार्बोनेटीकृत जल से संबंधित मद क .01.01 के पैरा 2 में,—

(क) “100 भाग प्रति दस लाख से अनधिक एस्टरगम (काष्ठ रेजिन का ग्लिसरोल एस्टर)” संख्याओं और शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“जीपीएम स्तर से अनधिक जैलन गम”;

(ख) “300 पीपीएम से अनधिक सुक्रलोस” संख्याओं और शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित संख्या और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“या 33 पीपीएम से अनधिक नियोटेम”।

7. उक्त नियमों की परिशिष्ट ‘ग’ में,—

(क) सारणी 2 की क्रम संख्यांक ग में, मद संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर स्तंभ 2 के नीचे निम्नलिखित पद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“1.सोर्बिक अम्ल और उसके सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम लवण (सोर्बिक अम्ल के रूप में परिकलित)”;

(ख) सारणी 8 की क्रम संख्यांक छ में,—

(i) इस्टर गम से संबंधित मद संख्यांक 4 के सामने कार्बोनेटीकृत बीवरेज या फ्रूट ड्रिंक से संबंधित स्तंभ (7) के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“100 पीपीएम अधिकतम”।

(ii) क्रम संख्यांक छ में, मद संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
“8 जैलन गम	-	-	-	-	-	जीएमपी	-	जीएमपी	-	-	-	-

(iii) क्रम संख्यांक ज में, सोडियम हेक्सासमेटा फास्फोरस के सामने कार्बोनेटीकृत फ्रूट बीवरेज या फ्रूट ड्रिंक से संबंधित स्तंभ (7) के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“1000 पीपीएम अधिकतम”।

(ग) सारणी 9 में,—

(i) क्रम संख्यांक झा में, मद संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
“4 जैलन गम	-	-	-	जीएमपी	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(घ) सारणी 10 की क्रम संख्यांक त में,—

(i) मद संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
“5 एस्टर गम	-	-	-	-	-	जीएमपी	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6 जैलन गम	-	-	-	-	-	जीपीएम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(ii) मद संख्यांक द और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
“ब. प्रच्छालक सोडियम हेक्सासमेटा फोस्फेट	-	-	-	-	-	1000 पीपीएम अधिकतम	-	-	-	-	-	1000 पीपीएम अधिकतम	-	-	-

(ड) सारणी 13 में,—

क्रम संख्यांक ज के पश्चात् सिलखड़ी से संबंधित मद संख्यांक 1 में चूड़गम/बबलगम से संबंधित स्तंभ 7 के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“2.0 प्रतिशत अधिकतम”।

[सं. पी. 15014/5/2008-पीएच (एफ)]

देवारीष पण्डा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 2106, तारीख 12 सितम्बर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 754(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2008 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2009

G.S.R. 43(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), is hereby published, as required by the said sub-section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objection or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi- 110011;

The objection and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (2nd Amendment) Rules, 2009.

- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter refer to as the said rules), in rule 42, after sub-rule (ZZZ)(25), the following sub-rules shall be inserted, namely :—

“(ZZZ)(26) Every package of food containing Polyols shall bear the following label :—

Polyols may have laxative effect

(ZZZ)(27) Every package of food containing Polydextrose shall bear the following label :—

Polydextrose may have laxative effect ”.

3. In rule 47 of the said rules,—

(a) in the Table,—

- (i) against serial number 2 relating to Aspartame (methyl ester), after the existing entries in columns 3 and 4, the following entries shall be inserted, namely :—

3	4
“Fruit Nectar	600 ppm
Vegetable Nectar	600 ppm
Ice-cream, frozen dessert and pudding	1000 ppm
Flavoured milk	600 ppm
Ready to Serve Tea and Coffee Beverages	600 ppm
Yoghurt	600 ppm
Ready to eat cereals	1000 ppm
Non-carbonated water based beverages (non-alcoholic)	600 ppm”;

- (ii) against serial number 3 relating to Acesulfame Potassium, after the existing entries in column 3 and 4, the following entry shall be inserted, namely :—

3	4
“Non-carbonated water based beverages (non-alcoholic)	300 ppm”;

- (iii) against serial number 4 relating to sucralose, after the existing entries in columns 3 and 4, the following entries shall be inserted, namely :—

3	4
“Non-carbonated water based beverages (non-alcoholic)	300 ppm
Jelly Crystals	*300 ppm
Custard powder / ready to eat custard dessert	*260 ppm
Chocolate	800 ppm”;

- (iv) after serial number 4, and the entries relating thereto, the following entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
“5	Neotame	Carbonated water	33 ppm
		Soft drink concentrate	*33 ppm”;

- (b) in the Explanation II after the Table, the paragraph beginning with the words “Maximum limit of artificial sweetener in soft drink concentrate” and ending with the words “reconstitution of products for making final beverage” shall be substituted with the following paragraph, namely :—

“Maximum limit of artificial sweetener in the product shall be as in reconstituted beverage or food or in the final beverage or food for consumption, as the case may be. The product label shall give clear instructions for reconstitution of products for making final beverage or food for consumption as the case may be.”;

- (c) after Explanation II, in the proviso,—

(i) after the words "or sucralose", the words "or Neotame" shall be inserted;

(ii) at the end of the list of carrier or filler articles, the following shall be inserted namely :—

"22. Erythritol";

(d) in sub-rule (2), after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that mixture of aspartame (methyl ester) and acesulfame K potassium (in ratio 2 : 1) may be marketed as Table Top Sweetener and may contain the carrier or filler articles as mentioned in the proviso given under the Table in sub-rule (1) and under label declaration as provided in clause (1) and (2) of sub-rule (ZZZ) of rule 42."

4. after rule 47 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:—

"47-A. Restriction on use of Polyols in foods.—No Polyols shall be added to any article of food except specified in these rules and Appendix 'C'. Polyols may be used in food articles mentioned in the Table given below and shall bear the label declaration as provided in sub-rule (ZZZ)(26) of rule 42:—

Sl. No.	Name of Polyols	Article of Food	Maximum Limit
1.	Isomalt	(i) Traditional Indian Sweets (carbohydrates based and milk products based) Halwa, Mysore Pak, Boondi Ladoo, Jalebi, Khoya Burfi, Peda, Gulab Jamun, Rasogolla and similar milk product based sweets sold by any name.	GMP
		(ii) Instant sweet meat mixes (pongali mix, gulab jamun mix, jalebi mix)	
		(iii) Bakery products	
		(iv) Jams, Jellies and Marmalades	
		(v) Edible ices	
		(vi) Ice-cream, frozen desserts, sweetened yoghurt.	
2.	Erythritol	Diary drinks (chocolate and flavoured milk), carbonated beverages, non-carbonated water based beverages (non-alcoholic), icecream, yoghurt, puddings, non-dairy toppings, bakery mixes, cake, cookies and pastries, ready to eat breakfast cereals, soft candies, chocolate and hard candies.	GMP

47-B. Use of Polydextrose in foods.—Polydextrose may be used in following food articles subject to maximum level as per GMP and proper label declaration as provided in sub-rule (ZZZ)(27) of rule 42 :—

Ice-cream, Frozen dessert, Cakes, biscuits, yoghurt, whip topping, sugar boiled confectionary, lozenges, jam, fruit jelly, Traditional Indian Sweets (carbohydrates based and milk products based) Halwa, Mysore Pak, Boondi Ladoo, Jalebi, Khoya Burfi, Peda, Gulab Jamun, Rasogolla and similar milk product based sweets sold by any name."

5. After Rule 61-F of the said rules, the following shall be inserted, namely:—

"61-G Use of Acid Treated Starch in Sugar Confectionery.—Acid Treated Starch may be used in sugar confectionery not exceeding GMP level".

6. In the said rules, in Appendix 'B', in item A.01.01 relating to Carbonated water, in para-2,

(a) after the words and figures "Ester gum (Glycerol esters of wood rosin) not exceeding 100 parts per million," the following words and letters shall be inserted, namely:—

"Gellan gum not exceeding GMP level";

(b) after the words and figures "Sucralose not exceeding 300 ppm", the following words and figures shall be inserted, namely:—

"or Neotame not exceeding 33 ppm".

7. In the said rules, in Appendix 'C',

(a) in Table 2, in Serial Number C, for item number 1, and the entries relating thereto, under column 2, the following item and the entries shall be inserted, namely:—

"1. Sorbic Acid and its sodium, potassium and calcium salt (calculated as Sorbic Acid)";

(b) in Table 8, in serial number G,—

(i) against item number 4 relating to ester gum, for the existing entry under column (7) relating to carbonated fruit beverage or fruit drink, the following shall be inserted, namely:—

"100 ppm maximum";

(ii) in Serial Number G, after item number 7 and the entries relating thereto, the following item number and the entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"8 Gellan gum	-	-	-	-	GMP	-	GMP	-	-	-	-	-"

- (iii) in Serial Number J, against Sodium Hexameta Phosphate, for the existing entry under column (7) relating to carbonated fruit beverage or fruit drink, the following entry shall be inserted, namely:—

“1000 ppm maximum”;

(c) in Table 9,

- (i) in Serial Number I, after item number 3 and the entries relating thereto, the following item number and the entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

“4	Gellan	-	-	GMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-”;
	gum												

(b) in Table 10, in Serial Number K,

- (i) after item number 4 and the entries relating thereto, the following item number and the entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

“5	Ester	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gum					ppm									
						Max.									

6	Gellan	-	-	-	-	GMP	-	-	-	-	-	-	-	-”;
	gum													

- (ii) after serial number M and the entries relating thereto, the following item number and the entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

“N Sequesterant

Sodium	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	-	1000	-	-	-”;
--------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	------	---	---	-----

Hexameta					ppm							ppm			
----------	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

Phosphate					Max.							Max.			
-----------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

- (e) in Table 13,

after serial number J, in item number 1 relating to Talc, for the existing entry under column 7 relating to Chewing gum/Bubble gum, the following entry shall be substituted, namely:—

“2.0 per cent maximum”.

[No. P. 15014/5/2008 - PH(F)]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 2106, dated the 12th September, 1955 and were lastly amended *vide* notification number G.S.R. 754(E), dated the 27.10.2008.